

NITIN SPINNERS LTD.



REF: NSL/SG/2020-2021

Date: 02.11.2020

BSE Limited

Department of Corporate Services

PhirozeJeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

BandraKurla Complex

Bandra (E),

Mumbai - 400 051.

Company Code - 532698

Company ID - NITINSPIN

<u>Sub.</u>: Submission of copy of Newspapers in respect of Publication of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020

Dear Sir/Madam,

In compliance of Regulation 30 and 47(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we wish to inform you that the Company has published the Un-Audited Financial results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 in The Business Standard (English) newspaper dated 02.11.2020 and The Rajasthan Patrika (Hindi) newspaper dated 01.11.2020. The copies of the relevant pages of Newspapers are attached herewith for your records and ready reference.

Thanking you,

Yours faithfully,

For-Nitin Spinners Ltd.

(Sudhir Garg)

Company Secretary & GM (Legal)

Encl a/a

CIN.: L17111RJ1992PLC006987

Regd. Office & Plant: 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara (Raj.) 311 025

Tel.: 286110 to113, Fax: 91-1482-286114 & 117

E-mail: nsl@nitinspinners.com, Website: www.nitinspinners.com











ादान दिवस पर पटेल के जन्मदिन पर ो्रसजन।



वस व लौहपुरुष की जयंती पर आयोजित

के

नय

रत

नार्ड

न्ता

इस

र्रेज

नाई

भीर

क

181

क

ड़,

गर र्ता

ानी

रीी,

गत

गर

द्रा

सर

य.

श

जहाजपुर. शिवजी नगर कॉलोनी संतोष नगर में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकुमार मीणा, उपाध्यक्ष बाबलाल खटीक. बेर्ड सरपंच बाबलाल मीणा. सेवादल के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, पूर्व सरपंच लालाराम बलाई, साजिद पठान, पूर्व सरपंच राजकुमार चौधरी, पूर्व सरपंच कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष मनीषा पंचोली. महिला प्रदेश उपाध्यक्ष विमला सोनी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पृष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजिल दी गई।

मांडलगढ़. नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पर लौह पुरुष भारत रत्न वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती व आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर श्रद्धा समन अर्पित किए । इस मौके पर कार्यक्रम मे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष रसीद आसाम, पूर्व नगर पालिका अनीता सुराणा, संगठन महासचिव राज भगत सिंह, भंवर सिंह नाहरगढ़, उदय लाल गुर्जर, बिंदिया शर्मा व अन्य लोग उपस्थित थे।

CARITY CHA MECH. बाटे मास्क

भीलवाड़ा. संस्था सुमंगल सेवा संस्थान ने कोरोना में पर्यावरण प्रदूषण रोकने तथा गोवंश की सरक्षा के लिए कपड़े के थैले व मास्क बांटे। अमित काबरा ने बताया कि श्री राधा कृष्ण मित्र मंडल ने विवेकानंद नगर क्षेत्र में वितरण किया। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन ने आजाद चौक मार्केट. प्रताप टाकीज रोड. कोतवाली क्षेत्र मेंलोगों को दो गज दूरी व मास्क का महत्व समझाया। मंसूरी समाज ने सांगानेरी गेट मदरसा दारूल उलूम ने समाजजनों में मास्क बांटे। डॉ. फकरूद्दीन मंसरी ने बताया कि 3000 मास्क व फल वितरण किए गए। उपाध्याय अब्दल रज्जाक मंस्री, अजीज मोहम्मद मंस्री, खुर्शीद अहमद मंसूरी, अल्ताफ मंसूरी, गुलाम सरवर, अब्दुल हकीम मंसूरी आदि ने सहयोग किया। एमजीएच में महावीर इन्टरनेशनल मीरा ने मास्क का वितरण किया। अधीक्षक डॉ.अरुण गौड़, अर्चना सोनी, प्रिंसिपल शैलभ शर्मा व पूर्व सभापति मंजू पोखरना मौजूद थे।

श्री यश मैना स्वधर्मी सहायता समिति ने काशीपुरी स्थित शीतल स्वाध्याय भवन में साध्वी ज्ञानलता एवं प्रियदर्शना के सानिध्य में 40 परिवारों को खाद्य सामग्री की।

1रोन घरों पर ही इबादत कर मनाया पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव

काछोला. केंद्र व राज्य सरकार कि गाइड लाइन के अनुसार कोरोना कोविड 19 को लेकर कोरोना संर मण के कारण धार्मिक जलसे पर प्रतिबंध होने से पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब जन्मोत्सव पर जलसा व अन्य बडे आयोजन नहीं होकर सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर धोलाई वाले बाबा कि दरगाह पर चादर पेश कर अकीदत के फल पेश किए। मौलाना मोहम्मद

उस्मान रिजवी ने देश प्रदेश में अमन चैन खशहाली व कोरोना महामारी से निजात कि दुआ मांगी। वही मुस्लिम जनों में मिलादे मोहम्मदी में शिरकत की व दरगाह कमेटी के सानिध्य में मास्क वितरित किए। इस मौके पर वक्फ कमेटी सदर मुंशी मोहम्मद मंसूरी, दरगाह कमेटी सदर शरीफ मोहम्मद मंसरी. अब्दुल सलाम रंगरेज, कैशियर उम्मेद खान कायमखानी. सेकेटी मोहम्मद शाबीर रंगरेज. असरफ अली बिसायती. कमालुद्दीन, मुबारिक हसैन. उस्मान गनी, मंजूर खां. शाह आदि ने कोरोना कोविड कि पालना करते हुए मनाया।

ाकीदतमंद।

Bhilwara Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd AN I.S.O. 9001:2008 & IS 15000 (HACCP) Certified Organisation 5 कि.मी. अंजनेर रोड, पोस्ट बॉन्स नं.४६, भीलवाड़ा- ३११००१ दुरमाप हा - ०१४८२ २६४३४१, २६५३४०, २६४३४६

Ref. No. BZDUSSL/MAIN STORE/SCRAP TENDER/F.(18)/2020/19995-20042

Notice Inviting Bid

Bids For Sale of Empty Ghee Tin 15 kg. Scrap (Broken) is invited from interested bidder upto 1.00 P.M on date 24.11.2020. other particulars of the bid may visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state www.bhilwaradairy.com.

UBN-CDF2021GSRC00742

(आख समी) प्रबंध संचालक

जीवन में भरे रस-हमारा प्यारा



NITIN

Read. Office : 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara L17111RJ1992PLC006987 • Tel.: +91 1482 286110, Fax: 91 1482 286117. Website: www.nitinspinners.com • E-Mail - nsl@nitinspinners.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

S.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended	
No.			30.09.2019		
1	Total Income from Operations (Net)	42698.57	37281.88	64689.75	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional items)	1804.31	104.82	419.62	1752.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	1804.31	104.82	419.62	1752.38
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax & Exceptional items)	1192.34	73.48	277.18	1149.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1250.70	44.14	595.89	1017.26
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	5622.00	5622.00	5622.00	5622.00
7	Reserves i.e. Other Equity (excluding revaluation Reserves in Audited Balance Sheet as at 31.03.2020)	43781.32			
	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations)- 1. Basic 2. Diluted	2.12 2.12	0.14 0.14	0.49 0.49	2.05 2.05


The above is an extract of the detailed Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.nitinspinners.com

For and on behalf of Board of Directors
For Nitin Spinners Ltd

(R.L. Nolkha) Chairman DIN: 00060746

Date: 31.10.2020

Place : Hamirgarh (Bhilwara)



Business Standard

ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED

**CIN-L27100WB1979PLC032200

**Regd. Off.: 14, N.S.Road, 2nd Floor, Kolkata-700 0

Corporate Off: Lansdowne Towers' 2/1 A, Sarat Bose Road, Kolkata-700 020 Contact: 033-6638-4700"Fax No.-033-2289-0285

Website: www.adhunikindustries.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board or Directors of the Company will be held at the Corporate Office of the Company on Monday 9th day of November, 2020 to Inter-alial discussory.

onsider, approve and take on record the U audited Financial Results of the Company f

the Quarter and Half year ended 30t September, 2020. The information is als placed on the website of the Company a www.adhunikindustries.com and at stoc

exchange at www.bseindia.com

ww.nseindia.com and www.cse-india.com

UPI transactions surpass 2-billion mark in October

Mumbai, 1 November

nified Payments Interface (UPI), the flagship payments platform of the National Payments Corporation of India (NPCI), recorded over two billion transactions in October, a milestone that highlights the faster adoption of digital payments in a post-Covid-19 world.

The transactions, which had crossed the one-billion mark in the first 15 days of the month, amounted to ₹3.86 trillion in October.

The NPCI data shows UPI registered 2.07 billion transactions, almost 82 per cent higher than the 1.14 billion transacreported in the corresponding month last year.

Launched in 2016, it had crossed 1 billion transactions for the first time in October 2019. While it took UPI three vears to reach a billion transactions in a month, the next billion came in just a year.

UPI has rebounded sharply from its fall in April, when it recorded 0.99 billion transac-



INE JOURNET INIS TEAK							
	Transaction count (bn)	Transaction value (₹ trn)					
Jan	1.30	2.16					
Feb	1.32	2.22					
Mar	1.24	2.06					
Apr	0.99	1.51					
May	1.23	2.18					
Jun	1.33	2.61					
Jul	1.49	2.90					
Aug	1.61	2.98					
Sep	1.80	3.29					
0ct	2.07	3.86					
Source:	: NPCI						

tions as the pandemic-induced lockdown forced people to cut spending. Since then, transactions have more than doubled, despite the economy witnessing a contraction in the first quarter.

Experts believe e-commerce platforms have contributed to this, especially in the festive season.

"As businesses open up, we UPI payments as an increas-

ing number of customers opt for digital payments, owing to convenience and safety. With the festive season in full bloom, October has seen a huge surge in UPI payments. UPI is set to create new records in the times to come as it gains larger acceptance in our coun-

Many suggest transactions are noticing a huge uptake in are now moving away from the card segment to UPI and other

try," said Ashneer Grover, CEO

& Co-founder of BharatPe.

According to industry insiders, UPI has been growing in the P2P and person-to-

merchant segments.

Since June, UPI has been recording new highs every month, with the pandemic helping accelerate its adoption. However, UPI is fundamentally for low ticket size transactions, with the average ticket size not more than ₹200-300. Credit cards still have higher transaction payment

Immediate Payment Service (IMPS) has also touched an all-time high in terms of transactions and their value. In October, IMPS clocked almost 319 million transactions worth ₹2.74 trillion. In the corresponding period last year, IMPS had reported 236 million transactions worth ₹2.12 trillion.

On the other hand Bharat Bill Payment System recorded 23.72 million transactions worth ₹3,961 crore in October. And, FASTag saw transaction count increase to 122.36 million, up almost 300 per cent

Hizbul commander Saifullah killed near Srinagar

PRESS TRUST OF INDIA Srinagar, 1 November

Hizbul Muhajideen (HM) chief Saifullah Islam Mir was killed in a shootout on the outskirts of Srinagar on Sunday, police said, describing it as a huge success for the security forces.

Mir, 31, also known as Dr Saifullah and Gazi Haider, had taken command of the outfit after the killing of his predecessor Riyaz Naikoo in May this year. He was one of the most wanted militants in the Kashmir

Valley and involved in several attacks on the families will heave a sigh a relief as he security forces, an official said.

Srinagar, Director General of Police Dilbag Singh said Mir, a resident of Malangpora village in Pulwama district, was active since October 2014 and was associated with slain HM commander Burhan Wani for a long time.

We had a successful operation today in which a top commander (Saifullah), you can say he was the number one commander of the HM, was killed. Several earlier this week," the DGP said.

was involved in killing of many people. Addressing a press conference in He was active since October 2014 and was associated with Burhan Wani for a long time," Singh said.

"He had killed many, including three policemen. He was behind the killing of two truck drivers immediately after the abrogation of Article 370. He attacked a Sarpanch in Kulgam recently but he survived the attack. He also had a hand in the killing of three BJP workers in Kulgam

FROM PAGE 1

'Stimulus is not a one-time affair'


At a broader level, the Indian economy will see near-zero growth and the actual tax collections will also be in that range, says Finance Secretary AJAY BHUSHAN PANDEY. In an interview with Dilasha Seth & Indivjal Dhasmana, Pandey focuses on the need to sustain this growth momentum and to rein in the pandemic without compromising on economic activity. Edited excerpts:

Do we expect another round of stimulus in November?

We have received suggestions from the Confederation of Indian Industry, Federation of Indian Chambers o $Commerce\,\&\,Industry, Confederation$ of All India Traders, micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and other ministries to identify the stressed sectors. Over the past seven months, we have kept our lines of communication and dialogue open with the industry and other sections of the population to frame our response. We are receiving their suggestions and will take a holistic view. But it is very difficult to give a timeline.

How different will be the Budgetmaking exercise this year?

There is demand revival. Goods have started moving, indicated by e-way bill generation. Covid numbers are coming down and the recovery rate is higher. For the budgetary exercise, we are constantly reviewing the situation. Each sector will get reflected in our Budget proposals.



EVEN FOR A NEAR-ZERO SITUATION, YOU HAVE TO SHOW STRONG POSITIVE PERFORMANCE IN H2'

AJAY BHUSHAN PANDEY Finance secretary

What will be the focus of the Budget? We are in discussions with stakeholders.

The Department of Expenditure is meeting every department and collating suggestions and needs. I have written to all states, asking them to send in their suggestions. We have also written to industry bodies, MSMEs, and trade associations. The Budget discussions will be via videoconferencing this year as it has become the norm.

Amid lingering uncertainty due to Covid, will next year's Budget targets be reviewed mid-vear?

In the entire budgetary system, we have a Budget Estimate. The first revision happens during the monsoon session. The inbuilt system is there to review and keep revising estimates through supplementary proposals.

How much shortfall are you expecting in this year's revenue targets?

In certain months this fiscal year, we have had lower revenue — both direct tax and indirecttax. It is now starting to show positive signs. At a broader level, the economy will see near-zero growth. If that happens, the actual tax collections will also be in that range. We need to sustain this growth momentum. For that, we need to take adequate precautions to rein in the pandemic without compromising on economic activity.

How much slippage in fiscal deficit are you expecting this year?

We will know when we work out the Revised Estimates.

Have any of the opposing states responded to the GST compensation

proposal of borrowing ₹1.1 trillion vet? The FM has written to the CMs and requested them to avail of the options, so that the money can be given to them. We $remain\,engaged\,with\,them\,and\,will$ continue to convince them to avail of the option and take the money. They're welcome to join any time.

Over ₹1 trn GST collection...

summary returns were filed in October. Jain said this was because the last date for claiming input tax credit for 2019-20 was September 30 and a lot of companies must have carried out a yearly reconciliation and asked their vendors to file returns or report missing transactions, among other factors.

"We remain as yet unconvinced on the persistence of this trend after the festive season is over, after the pent-up demand is fulfilled," said Aditi Nayar, principal economist, ICRA. MS Mani, senior director at

Deloitte, said GST collection indicated a definite revival in consumption and festival spends in the economy.

The continuance of this trend will help in narrowing the fiscal deficit for 2020-21 and will go a long way in reviving business confidence across sectors as the impact of unlockdown across states gets translated into GST collection figures," said

Eight million input-output OCTOBER SEES 10% GROWTH GST collections (₹ cr)

2019 2020 Growth in % 110,818 102,503 8.11 January 97,247 105,366 February 8.35 106,577 97,597 -8.42 113,865 32,172 **-71.74 ■** 100,289 -38.03 May 62,151 99,939 90,917 -9.03 102,083 July 87,422 -14.36 98,202 86,449 -11.97 August September 91,916 95,480 3.88 **October** 95,379 105,155 10.25

Mani. All components of GST – central GST (CGST), state GST (SGST), integrated GST (IGST), or the compensation cess — were higher in October

than in September. For instance, CGST yielded ₹19,193 crore in October, against ₹17,741 crore in September, and SGST ₹25,411 crore in October, against ₹23,131 crore in the pre-

vious month. IGST collection stood at ₹52,540 crore in October, against ₹47,484 crore in September. Of this, ₹23,375 crore was collected through imports of goods, against

₹22.442 crore.

Compensation cess collec-

tion rose to ₹8,011 crore, against ₹7,124 crore. Of this, ₹932 crore was through imports of goods,

against ₹788 crore in September. Abhishek Jain, tax partner, EY, said, "This uptick in collection on a month-on-month basis and over the same month last year is a welcome one."

He attributed this to greater demand on account of the festivities and input tax credit and other similar reconciliations which were due to businesses in September. In October, revenues (IGST) from imports of goods were 9 per cent higher and collection from domestic transactions (including imports of services) was 11 per cent more than those from these sources during the same month last year. This also indicates revival in demand in the economy. The number of states showing a fall in GST collection from domestic transactions reduced to six in October, from 14 in September.

Kapil Rana, founder and chairman of HostBooks, said growth in GST collection and returns filed depicted strong economic recovery.

No Air Surcharge



Mumbai

November 2, 2020

Abbott India Limited

CIN: L24239MH1944PLC007330 Regd Office: 3, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Mumbai - 400 071 Tel No.: 022-5046 1000/2000/6797 8888 Fax No.: 022-5016 9400 Abbott Email Id: investorrelations.india@abbott.com Website: www.abbott.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020, interalia, to consider and approve the text of Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended on September 30, 2020.

The copy of this intimation shall also be available on the website of the Company at www.abbott.co.in and on the website of the BSE Limited www.bseindia.com.

Abbott India Limited

Krupa Anandpara

Company Secretary Membership No.: ACS16536

HIL LIMITED CIN: L74999TG1955PLC000656 Regd. Off.: Office No. 1 & 2, L7 Floor, SLN Terminus, Survey No. 133,

Bharat Agarwa Company Secretary & Compliance Office

(CK BIRLA GROUP

Near Botanical Gardens, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana Tel: 040-68249189, Website: www.hil.i

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company i scheduled to be held on Tuesday November 10, 2020 at 4:30 PM through Audio/Video conferencing facility hosted from HIL Limited, Level 7, SLN Terminu Gachibowli, 500032, inter-alia to conside and take on record, among other matters the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. In regard to the above, Trading Window

be open from November 13, 2020 for al the Designated Employees. The intimation sent to Stock Exchange available at the website of the Company www.hil.in/investors and on the websit

was closed from September 30, 2020 will

of National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange For HIL Limite

KR Veerappar Chief Financial Officer

adventz

Zuari Agro Chemicals

Limited CIN: L65910GA2009PLC006177

Regd. Office: Jai Kisaan Bhawan,

Zuarinagar, Goa - 403 726. Telephone: (0832) 2592180, 2592181

Website: www.zuari.in

NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015

notice is hereby given that the

Meeting of the Board of Directors

of the Company will be held or

Monday, the 9th November, 2020

through video conferencing mode, to

inter alia, consider & approve the

Unaudited Financial Results fo

the quarter and half year ended

The said Notice may be accessed on the Company's website at

www.zuari.in and may also be

accessed on the stock exchanges

websites at www.bseindia.com and

For Zuari Agro Chemicals Limited

Vijayamahantesh Khannui

Company Secretary

30th September, 2020.

www.nseindia.com

Place : Zuarinagar, Goa

Date : October 31, 2020

NITIN SPINNERS LIM Regd. Office: 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara - 311 025 (Rajasthan)

CIN L17111RJ1992PLC006987 • Tel.: +91 1482 286110, Fax: 91 1482 286117. Website: www.nitinspinners.com • E-Mail · nsl@nitinspinners.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

	(Rs. in Lacs)								
S.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended					
No.		30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019				
1	Total Income from Operations (Net)	42698.57	37281.88	64689.75	65641.40				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax & Exceptional items)	1804.31	104.82	419.62	1752.38				
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional	1804.31	104.82	419.62	1752.38				
	items)								
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax & Exceptional items)	1192.34	73.48	277.18	1149.75				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/	1250.70	44.14	595.89	1017.26				
l	(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income								
l	(after tax)]								
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	5622.00	5622.00	5622.00	5622.00				
7	Reserves i.e. Other Equity (excluding revaluation Reserves in	43781.32							
l	Audited Balance Sheet as at 31.03.2020)				43701.32				
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations)-								
l	1. Basic	2.12	0.14	0.49	2.05				
l	2. Diluted	2.12	0.14	0.49	2.05				

Tanquin .

The above is an extract of the detailed Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.nitinspinners.com

> For and on behalf of Board of Directors For Nitin Spinners Ltd

(R.L. Nolkha)

Date: 31.10.2020 Place: Hamirgarh (Bhilwara)

SANGAM (INDIA) LIMITED CIN: £17118RJ1984PLC003173 EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED

(₹ in Lakhs) 30th SEPTEMBER, 2020 Half Year Ended Particulars Financial Year Ended 30.09.20 30.06.20 30.09.19 30.09.20 30.09.19 31.03.20

Total Income from Operations (5541)Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or (4961 587 (4961) 403 (5541) 587 2014 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or (580 (3252) (3676) 425 1328 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or (424 311 (3055) 307 (3471) 440 1118 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for (416) the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] 3942 3942 3942 3942 394 3942 Paid-up Equity Share Capital (1.08 (8.25)0.79 (9.32)1.08 Earning per share (not annualised) (before extraordinary items) 3.37 (of ₹ 10/- each) Basic & Diluted (In ₹) (1.08 (8.25)0.79 (9.32)1.08 3.37 arning per share (not annualised) (after extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Basic & Diluted (In ₹)

The above Consolidated financial results for the quarter ended 30th September, 2020 were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approve

The above Consolidated financial results for the quarter ended 30th September, 2020 were reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors in their meeting held on 31st October, 2020.

As per regulation 47(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 result on standalone basis for the quarter ended 30th September 2020 is given: (1) Revenue from Operations 31170 Lakhs (2) Profit/Loss Before Tax (557) Lakhs and (3) Profit/Loss after Tax (407) Lakhs.

The Board of Directors of the Sangam India Limited (SIL) and Sangam lifestyle Ventures Limited (SLVL) has approved the Scheme of Amalgamation of SLVL with SIL on dated 14th September, 2020 and 12th September, 2020 respectively, appointed date being 1st April, 2020. Scheme is pending for approval of Shareholders of the Company and necessary approval from the Regulatory Authority. Accounting effect will be given of the proposed Scheme once approval is received from the shareholders /appropriate Authorities.

The above is an extract of the detailed Consolidated Financial Result for the quarter ended 30th September, 2020 filed with the stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterty Standalone and Consolidated financial results are available on the stock Exchanges websites at www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the company's website www.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Bhilwara

Regd.Off.: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) Phone: 01482-245400, Fax: 01482-245450 Web: www.sangamgroup.com, Email: secretarial@sangamgroup.com

Jangam **J**angam

FORM G

ncy Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

COASTAL ENERGY PRIVATE LIMITED

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST **Business Standard** (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (In **DELHI EDITION RELEVANT PARTICULARS**

Name of corporate debtor

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shvamal Maiumdar

RNI NO. 57376/1994 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax:+91-11-23720201

For Subscription and Circulation

enquiries please contact:

Ms. Mansi Singh Business Standard Private Limited. H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013

E-mail: subs bs@bsmail.in "or sms. SUB BS to 57007 DISCLAIMER News reports and feature

articles in Business Standard seek to presen an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstance beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment of business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itsel with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all right

reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consen of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any

2. Date of incorporation of corporate debtor 18/02/1997 3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered | ROC, CHENNAI Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Address of the registered office and principal office (if any) of #11, Mahalingapuram Main Road, Nungambakkam, corporate debtor Chennai-600034 Insolvency commencement date of the corporate debtor 06-01-2020 Date of invitation of expression of interest 02-11-2020 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of Details can be sought from cirp.cepl@gmail.com the Code is available at: Norms of ineligibility applicable under section 29A are Details can be sought from cirp.cepl@gmail.com available at: 10. Last date for receipt of expression of interest 11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 27-11-2020 12. Last date for submission of objections to provisional list 02/12/2020 13. Date of issue of final list of prospective resolution applicant 12/12/2020 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix 02/12/2020 and request for resolution plans to prospective resolution applicants The prospective resolution applicants are requested to send an Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation email to cirp.cepl@gmail.com. IM/RFRP and EM shall be provided matrix, information memorandum and further information via email/data room after execution of confidentiality undertaking 16. Last date for submission of resolution plans Manner shall be specified in the request for resolution plan(RFRP) Manner of submitting resolution plans to resolution professional Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval 19 Name and registration number of the resolution professional Ramakrishnan Sadasivan IBBI/IPA-001/IP-P00108/2017-18/10215

23 Date of publication of Form G 02/11/2020 Notes: (1). The RP/COC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any point of time. (2). RP/COC reserves the right to cancel or modify the process / application without assigning any reason and without any liability whatsoever. (3). The above timelines are subject to the approval of NCLT for extension of time under Section 12 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

> (RamakrishnanSadasivan) Resolution Professiona Coastal Energy Private Limited(Under CIRP) IBBI/IPA-001/IP-P00108/2017-18/10215 New No.28 Old No.22 Menod Street, Purasawalkam, Chennai -600 007 Registered Email: sadasivanr@gmail.com, Correspondence Email:cirp.cepl@gmail.com

Ramakrishnan Sadasiva

Ramakrishnan Sadasivan

Ramakrishnan Sadasivan

New No.28 Old No.22 Menod Street, Purasawalkam

New No.28 Old No.22 Menod Street, Purasawalkam

Email : cirp.cepl@gmail.com. Mobile : 94444 55982

Chennai -600 007. Email: sadasivanr@gmail.com.

Correspondence Email : cirp.cepl@gmail.com. Mobile : 94444 55982

Correspondence Email : cirp.cepl@gmail.com. Mobile : 94444 55982

Chennai -600 007. Email: sadasiyanr@gmail.com

Date: 02.11.2020 Place: Chennai

Name, Address and e-email of the resolution professional

Address and email to be used for correspondence with the

as registered with the Board

resolution professional

22 Further Details are available at or with